

# अल्पसंख्यक अधिकार दिवस विशेषांक

वर्ष : 1, अंक : 5 | 18 दिसंबर, 2019





प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मई 2014 में देश की बागडोर संभालते ही 'सबका साथ-सबका विकास' का मंत्र लेकर चले। उन्होंने पूरे देश की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। बदलते दौर में अल्पसंख्यक समुदाय विकास की रेस में कहीं पिछड़ न जाएं, इसके लिए उन्होंने अपनी तमाम नीतियों में उनके हितों का पूरा ध्यान रखा।

तमाम चुनौतियों से टकराते हुए पीएम मोदी ने जहां मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से मुक्ति दिलाकर उन्हें समान अधिकार दिलाया, वहीं नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद से पारित कराया और पड़ोसी देशों से आए करोड़ों अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता दिलाई। पीएम मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण का ऐतिहासिक फैसला लेकर सिख समुदाय की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया। 30 साल से इंसाफ के लिए तरस रहे 1984 सिख विरोधी हिंसा पीड़ितों को मोदी सरकार में ही इंसाफ मिला।

पिछले पांच सालों में पीएम मोदी ने अपने काम से न सिर्फ अल्पसंख्यकों का विश्वास जीता, बल्कि उनमें नई उम्मीद भी जगाई। आज 18 दिसंबर को जब पूरा विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मना रहा है, तो ऐसे में इसका विशेष उल्लेख करना जरूरी है कि पीएम मोदी किस तरह भारत के साथ ही पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के तारणहार बनकर सामने आए हैं।





अल्पसंख्यक  
अधिकार  
दिवस

# मोदी सरकार में हुआ मुमकिन



- ◆ पहली बार रिकॉर्ड 2 लाख भारतीय मुसलमानों ने 2019 में हज यात्रा की।
- ◆ पहली बार 2018 में 'मेहरम' (पुरुष साथी) के बिना 1300 मुस्लिम महिलाएं हज यात्रा पर गईं।
- ◆ पहली बार अल्पसंख्यकों के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी 10% आरक्षण का लाभ मिला।
- ◆ पहली बार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमों का देश के 308 जिलों तक विस्तार किया गया।
- ◆ पहली बार देशभर की वक्फ सम्पत्तियों का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि के निर्माण के लिए किया जा रहा है।
- ◆ इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब कोई पीएम दाऊदी बोहरा समाज के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुआ।
- ◆ पहली बार सिविल सेवा परीक्षा-2017 में 131 अल्पसंख्यक चयनित हुए, जिसमें 51 मुस्लिम थे।
- ◆ पहली बार नवंबर 2016 में दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए 'हुनर हाट' की शुरुआत की गई।
- ◆ पहली बार मोदी सरकार ने एसआईटी गठित कर 1984 सिख विरोधी हिंसा पीड़ितों को इंसाफ दिलाई।
- ◆ पहली बार करतारपुर कॉरिडोर से होकर गुरुद्वारा दरबार साहिब का दर्शन संभव हुआ।
- ◆ पहली बार सिख समुदाय के गुरुद्वारों में लंगर को टैक्स फ्री किया गया।





# सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास



“हम सबको मिलकर 21वीं सदी में हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर ले जाना है। ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ ये हमारा मंत्र है।”



“हमारी यह कोशिश है कि सबकी तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलें। क्योंकि सारे मुल्क की तकदीर हर शहरी की तरक्की से जुड़ी है। क्योंकि मुल्क की खुशहाली से हर एक की खुशहाली बाबस्ता है।”





अल्पसंख्यक  
अधिकार  
दिवस

# अल्पसंख्यक शरणार्थियों को राहत



- ◆ नागरिकता संशोधन विधेयक बना कानून
- ◆ हिन्दू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसियों को मिली नागरिकता
- ◆ अभी तक दर-बदर रहे 'अल्पसंख्यकों' को मिला ठौर
- ◆ अल्पसंख्यकों को सम्मान सहित जीवन यापन की मिली सुरक्षा
- ◆ करीब 2 करोड़ अल्पसंख्यक शरणार्थियों को मिली नई जिंदगी
- ◆ पाक, अफगान और बांग्लादेश से आए पीड़ितों को मिली शरण

## सुगम हुई हज यात्रा

- ◆ पीएम मोदी के आग्रह पर सऊदी अरब ने बढ़ाया हज कोटा
- ◆ 2 लाख भारतीय हज यात्रियों में करीब 48 प्रतिशत थीं महिलाएं
- ◆ 2017 में हटी बिना 'मेहरम' महिला के हज पर जाने की रोक
- ◆ हज यात्रा पर लगने वाला जीएसटी 18% से घटकर हुआ 5%
- ◆ सऊदी अरब में महिला हज यात्रियों के लिए अलग से सुविधाएं
- ◆ मक्का में 16 और मदीना में 3 स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए
- ◆ हज यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप लांच
- ◆ 2016 में हज यात्रियों की सुविधा के लिए वेबसाइट लॉन्च
- ◆ समुद्री मार्ग से हज यात्रा के लिए सऊदी अरब से हुआ समझौता





अल्पसंख्यक  
अधिकार  
दिवस


## आर्थिक सबलता

◆ मुद्रा योजना के तहत 2018-19 के दौरान 62.5 लाख अल्पसंख्यकों को मिला लोन

### अल्पसंख्यकों के लिए बजट में वृद्धि



### प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमों का विस्तार



### जीवन हुआ सुगम

आयुष्मान भारत योजना, जन धन योजना, पीएम-किसान सम्मान निधि, पीएम श्रमयोगी मान-धन योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, उज्वला योजना, आवास योजना, उजाला योजना, जल-जीवन मिशन



अल्पसंख्यक  
अधिकार  
दिवस

## शैक्षणिक सुविधा

- ◆ अगले 5 साल में 5 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्तियां
- ◆ बीते 5 साल में 3.8 करोड़ छात्रों को मिली छात्रवृत्ति
- ◆ लड़कियों की शिक्षा के लिए 'पढ़ो-बढ़ो' अभियान
- ◆ 2018 में 'नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल ऐप' की शुरुआत
- ◆ शिक्षा-रोजगार की जानकारी देने के लिए 100 मोबाइल वैन
- ◆ प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 'नई उड़ान' योजना
- ◆ पिछले 5 सालों में 59,988 छात्र-छात्राओं को दी गई फ्री कोचिंग
- ◆ मदरसों के लिए श्री टी योजना यानी टॉयलेट, टिफिन और टीचर
- ◆ 200 "सद्भाव मंडप", 24 आवासीय स्कूलों के निर्माण की योजना
- ◆ बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों के लिए 'सेतु पाठ्यक्रम'
- ◆ 'पढ़ो प्रदेश' योजना के तहत विदेशों में पढ़ाई के लिए मदद



## कौशल, रोजगार और विकास

- ◆ देश में 100 गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र खोले गए
- ◆ पिछले 5 साल में 3.9 लाख युवाओं को मिला प्रशिक्षण
- ◆ 6 लाख से अधिक युवाओं को मिला रोजगार
- ◆ पिछले 5 साल में 5.6 लाख लाभार्थियों को मिला लोन
- ◆ कौशल विकास के लिए सीखो और कमाओ योजना
- ◆ 2015 में हस्तशिल्पियों के लिए उस्ताद योजना शुरू की गई
- ◆ स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए नई मंजिल योजना
- ◆ समस्याओं को सुनने और समाधान के लिए प्रोग्रेस पंचायत





अल्पसंख्यक  
अधिकार  
दिवस

## रोजगार और बाजार का स्रोत 'हुनर हाट'



- ◆ दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए रोजगार सृजन और बाजार से जोड़ने के लिए 'हुनर हाट' का आयोजन किया जा रहा है।
- ◆ पिछले चार वर्षों में एक दर्जन से अधिक 'हुनर हाट' का आयोजन किया गया।
- ◆ नवंबर 2019 तक 'हुनर हाट' के माध्यम से 2.5 लाख शिल्पकारों और कारीगरों को रोजगार मिला।



## डिजिटल इंडिया से आई पारदर्शिता



- ◆ वक्फ बोर्ड एवं वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण
- ◆ मार्च 2019 तक 90% दस्तावेजों का हुआ डिजिटलीकरण
- ◆ वक्फ बोर्ड एवं वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों में आई पारदर्शिता
- ◆ 6 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों का हुआ पंजीकरण
- ◆ वक्फ बोर्डों को वक्फ सम्पत्ति की देखभाल का अधिकार मिला
- ◆ डीबीटी के माध्यम से छात्रों को मिल रही हैं छात्रवृत्तियां
- ◆ डिजिटल साक्षरता के लिए 'साइबर ग्राम' परियोजना



## समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण

- ◆ हमारी धरोहर योजना के तहत अजमेर दरगाह का विकास
- ◆ अजमेर दरगाह के निकट 100 शौचालयों वाला परिसर निर्मित
- ◆ मगहर में पीएम मोदी ने संत कबीर के मजार पर चढ़ाया चादर



## कुरीतियों से मुक्ति और विकास

- ◆ मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मिली मुक्ति
- ◆ नई रोशनी योजना द्वारा महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास
- ◆ 2018-19 के दौरान 75816 महिलाओं को मिला प्रशिक्षण
- ◆ बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने लिए पढ़ो-बढ़ो अभियान
- ◆ शादी शगुन योजना के तहत लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा
- ◆ शादी से पहले स्नातक करने वाली लड़कियों को 51,000 रु.
- ◆ छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप



अल्पसंख्यक  
अधिकार  
दिवस

# नानक पंथ आधार




“गुरु नानक देव जी सिर्फ सिख पंथ और भारत की ही धरोहर नहीं बल्कि पूरी मानवता के प्रेरणा पुंज हैं। गुरु नानक देव गुरु होने के साथ ही एक विचार हैं, जीवन का आधार हैं।”



## गुरुवाणी का प्रसार

- ◆ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में गुरुवाणी का प्रकाशन का फैसला किया गया है।
- ◆ मोदी सरकार के अनुरोध पर यूनेस्को गुरु नानक देवजी की शिक्षा को विश्व भाषाओं में प्रकाशित करने जा रहा है।
- ◆ मोदी सरकार द्वारा पंजाब के गुरुनानक देव विश्वविद्यालय में अंतः पंथ केंद्र की स्थापना की जा रही है।
- ◆ अमृतसर में गुरु नानक जी के नाम पर यूनिवर्सिटी का निर्माण, जिसका टाइ-अप अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से किया जाएगा।
- ◆ मोदी सरकार के सहयोग से ब्रिटेन के बर्मिंघम विश्वविद्यालय में गुरु नानक पीठ की स्थापना की गई।





अल्पसंख्यक  
अधिकार  
दिवस

## सिखों को इंसाफ

- ◆ मोदी सरकार ने 2015 में सिखों को इंसाफ दिलाने के लिए एसआईटी बनाई और सजा भी दिलाई।
- ◆ पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी।
- ◆ पीएम मोदी ने 9 नवंबर, 2019 को करतारपुर कॉरिडोर को देश को समर्पित किया।
- ◆ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पीएम मोदी को 'कौमी सेवा पुरस्कार' से सम्मानित किया।
- ◆ ऐतिहासिक शहर सुल्तानपुर लोढ़ा को हेरिटेज टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- ◆ पीएम मोदी ने 13 जनवरी, 2019 को गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर स्मारक सिक्का जारी किया।
- ◆ 5 जनवरी, 2017 को पटना में गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती मनायी गई, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए।
- ◆ सिख श्रद्धालु अब देश के पांचों पवित्र तख्त स्थलों के दर्शन पंज तख्त एक्सप्रेस से कर सकेंगे।
- ◆ ब्लैक लिस्ट से 312 सिखों के नाम हटाए गए, अब वे भारत स्थित अपने रिश्तेदारों से मिल सकेंगे।
- ◆ बीते 5 वर्ष में करीब 27 लाख सिख विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी गई।
- ◆ अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी सिख अल्पसंख्यकों को समान अधिकार मिला।





# बुद्धम् शरणम्



“सरकार भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए करुणा के साथ लोगों की सेवा का कार्य कर रही है।”

## पीएम मोदी की 'बुद्ध नीति'

- ◆ दक्षिण पूर्व एशिया के लिए बनीं सांस्कृतिक पुल
- ◆ चीन से भी मुकाबला करने में मिलेगी मदद
- ◆ पर्यटकों को आकर्षित करने में मददगार
- ◆ रोजगार के अवसरों में होगी बढ़तूरी

## बौद्ध विस्तार

- ◆ पीएम मोदी ने 2015 में बुद्ध जयंती को राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की।
- ◆ देश में भगवान बुद्ध से जुड़ी जगहों को जोड़ने के लिए 'बौद्ध सर्किट' परियोजना की शुरुआत की गई।
- ◆ परियोजना के तहत सड़कों का विकास किया जा रहा है, जिसका काम 2020 तक पूरा हो जायेगा।
- ◆ मोदी सरकार म्यांमार, अफगानिस्तान, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में बौद्ध मंदिरों के संरक्षण में मदद कर रही है।
- ◆ भारत, मंगोलिया के Ganden Monastery की सारी पांडुलिपियों के संरक्षण और उनके डिजिटलीकरण का काम भी कर रहा है।





अल्पसंख्यक  
अधिकार  
दिवस

## पारसियों की जनसांख्यिकी वृद्धि



- ◆ जुलाई 2017 में “जियो पारसी पब्लिसिटी फेज-2” की शुरुआत
- ◆ पारसियों की घटती जनसंख्या को रोकने में सफलता मिली
- ◆ मार्च 2019 तक पारसी समुदाय के 184 बच्चों का जन्म
- ◆ पारसियों को दी जा रही है परामर्श एवं चिकित्सा सहायता

## जैन मुनि से प्रेरणा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को लाल क़िले की प्राचीर से जल संरक्षण के महत्व को बताते हुए जैन मुनि बुद्धिसागर सूरीश्वर जी महाराज की कविता का जिक्र किया।



“आज से करीब 100 साल पहले गुजरात के महुड़ी में जैन मुनि बुद्धि सागर जी महाराज ने लिखा था कि एक दिन ऐसा आएगा, जब पानी किराने की दुकान में बिकेगा।”

“जल संचय सरकारी नहीं जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। हमें जन सामान्य के आदर्शों, अपेक्षाओं और सामर्थ्य को लेकर आगे बढ़ना है।”